



icmr | **NIOH**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH

आई सी एम आर – राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या 1/परिपत्र /2025-26/ 301

23/04/2025

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी/समापन के लिए समयसीमा में संशोधन- संबंधी
Sub: Revision of timelines for preparation/completion of Annual Performance Assessment Report—reg

आईसीएमआर मुख्यालय ने दिनांक 22-04-2025 के मेल के माध्यम से केंद्रीय सिविल सेवाओं के संबंध में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की तैयारी और पूर्णता के लिए समयसीमा के संशोधन के संबंध में डीओपीटी द्वारा जारी दिनांक 09-04-2025 (संलग्न) का कार्यालय ज्ञापन सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा है।

ICMR Hqrs. vide mail dated 22-04-2025 have forwarded the OM dated 09-04-2025 (attached) issued by DoPT regarding the revision of timelines for the preparation and completion of the Annual Performance Assessment Report (APAR) in respect of Central Civil Services for information and necessary action.

यह सूचित किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23-07-2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-III में आंशिक संशोधन किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए APAR की तैयारी और पूर्णता की समय-सारिणी में दिनांक 09-04-2025 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

It is informed that a partial modification has been made to Annexure-III of the DoPT OM dated 23-07-2009. The time schedule for the preparation and completion of APARs for the year 2024-25 stands changed accordingly as per the above stated OM dated 09-04-2025.

सभी स्टाफ सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कृपया आवश्यक अनुपालन हेतु इसका ध्यान रखें।

All staff members are hereby informed to take a note of the same for necessary compliance pls.

(निषद दर्जी / Nishad Darji)
अनुभाग अधिकारी /Section Officer

प्रति/To:

सूचनापट्ट/Notice Board

Copy to:

- OIC, ROHC(S), Bangalore –for necessary compliance



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

No.16/65/2017-Admn/e- 191880

Dated:21/04/2025

To

The Directors/Directors-in-charge of
All Institutes/Centers of ICMR

**Sub :- Revision of timelines for preparation/completion of Annual Performance Assessment
Report.**

Sir/Madam,

Please find enclosed Office Memorandum dated 09-04-2025, issued by DoPT, regarding the revision of timelines for the preparation and completion of the Annual Performance Assessment Report (APAR) in respect of Central Civil Services for information and necessary action.

In the aforementioned Office Memorandum, a partial modification has been made to Annexure-III of the DoPT OM dated 23.07.2009. The time schedule for the preparation and completion of APARs for the year 2024-25 stands changed accordingly, as per the OM dated 09-04-2025, for ICMR also.

Digitally signed by
JAGDISH RAJESH
Date: 22-04-2025
05:27:53

(Jagdish Rajesh)
Assistant Director General (Admin.)

Copy to:

1. PS to DG/ Addl. DG/ Sr. DDG (A)
2. Heads of all Divisions, ICMR Hqrs.
3. DDG(A) / ADGs
4. Sr. AO/ AO (Intramural and Extramural)
5. Establishment Section, ICMR Hqrs
6. Personnel Section, ICMR Hqrs.
5. Dr. M.S Chalga, Sci- D, ICMR Hq- to upload in ICMR website

F. No. 21011/10/2025 PP(A-II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)

dated the 09th April, 2025


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of timelines for preparation / completion of Annual Performance Assessment Report (APAR) in respect of Central Civil Services

The undersigned is directed to invite reference to this Department's OM No.21011/01/2005-Estt.(A)(Pt.II) dated 23.07.2009 on the subject, "*Preparation and maintenance of Annual Performance Assessment Reports (APAR)*".

2. In partial modification of Annexure III of the abovementioned DoP&T OM dated 23.07.2009, the competent authority has approved revised time schedule for preparation / completion of Annual Performance Assessment Report (APAR). Accordingly, the revised time schedule, *i.e.*, Annexure III is annexed herewith.

3. These instructions will come into force from the Reporting Year 2024-25 onwards.


(Rajesh Sharma)

Under Secretary to the Government of India

All Ministries / Departments / Cadre Controlling Authorities of the Government of India

Copy to:

1. AIS Division, DoP&T, North Block, New Delhi
2. NIC for uploading of DoP&T's website

Annexure-III

Time schedule for preparation/completion of Annual Performance Assessment Report
(Reporting Year- Financial Year)

S. No.	Activity	Date by which to be completed	Auto Forward
1.	Distribution of blank APAR forms to all concerned (i.e., to Officer to be Reported Upon where self-appraisal has to be given and to Reporting Officers where self-appraisal is not to be given).	01 st April	-
2.	Submission of self-appraisal to Reporting Officer by Officer Reported Upon (where applicable)	15 th May	16 th May
3.	Submission of APAR by Reporting Officer to Reviewing Officer.	30 th June	01 st July
4.	APAR to be completed by Reviewing Officer and to be sent to Administration or CR Section / Cell or Accepting Authority, wherever provided	31 st July	01 st August
5.	Appraisal by Accepting Authority, wherever provided	31 st August	01 st September
6.	(a) Disclosure to the Officer Reported Upon where there is no Accepting Authority (b) Disclosure to the Officer Reported Upon where there is Accepting Authority	01 st September 15 th September	
7.	Submission of representation, if any, on APAR, by Officer Reported Upon	15 days from the date of disclosure of APAR	
8.	Forwarding of representation to the competent authority (a) where there is no Accepting Authority for APAR (b) where there is Accepting Authority for APAR	21 st September 06 th October	
9.	Disposal of representation by the competent authority	Within one month from the date of receipt of representation	
10.	Communication of the decision of the competent authority on the representation by the APAR Cell	15 th November	
11.	End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record	30 th November	